



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 833 राँची, गुरुवार, 11 कार्तिक, 1938 (श०)
2 नवम्बर, 2017 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

30 अक्टूबर, 2017

संख्या-01/नीति निर्धारण-10/2016/न०वि०आ०-6669-- झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा-18(1) में निहित प्रावधान के आलोक में शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को पद से अयोग्य करने हेतु अधिसूचित "झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचित प्रतिनिधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2017" के नियम-3-3.14 में निम्न रूपेण संशोधन किया जाता है:-

क्र०	नियमावली का नियम	अधिसूचित नियमावली में किया गया प्रावधान	संशोधित प्रावधान
1	2	3	4
1	नियम 3-3.14	अगर दिनांक-31.12.2017 की अवधि के पश्चात् उसके दो से अधिक जीवित संतान हों,	अगर उसके दो से अधिक जीवित संतान हैं, परन्तु यह कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के प्रवृत्त होने के एक वर्ष की अवधि की समाप्ति तक अगर किसी व्यक्ति को दो से अधिक संतान हैं तो वह अयोग्य नहीं होगा।

2. उपर्युक्त स्तंभ-4 में यथा उल्लेखित झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011, गजट अधिसूचना संख्या-63, दिनांक 9 फरवरी, 2012 को प्रवृत्त हुआ है ।

अतएव 9 फरवरी, 2013 तक अगर किसी व्यक्ति को दो से अधिक संतान है, तो वह अयोग्य नहीं होगा ।

3. यह संशोधन अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

4. “झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचित प्रतिनिधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2017” में संशोधन प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव ।
